

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2018—वैशाख 28, शक 1940

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2018

क्र. 32-18-2018-म-इकतीस-124.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संस्था से संबंधित उपसंभाग के उपयंत्रों में से एक उपयंत्र को, जिसे संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो, उक्त सारणी के कालम क्रमशः (2) तथा (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले की जल उपभोक्ता संस्था के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:—

सारणी

स. क्र.	जिला	जल उपभोक्ता संस्था का नाम
(1)	(2)	(3)
(1) जिला—छतरपुर		
1	छतरपुर	जगतपुर
2	छतरपुर	सरबई क्र. 1
3	छतरपुर	व्यासवदौरा
4	छतरपुर	खड़ेही
5	छतरपुर	बछौन
6	छतरपुर	गोयरा
7	छतरपुर	माधवपुर
8	छतरपुर	मनुरिया
9	छतरपुर	हाजीपुर
10	छतरपुर	छटीबम्हौरी
11	छतरपुर	गोहानी

(1)	(2)	(3)
12	छतरपुर	सरबई क्र. 2
13	छतरपुर	बंजारी
14	छतरपुर	सिंगारपुर
15	छतरपुर	चुकेहटा
16	छतरपुर	खड़ेहा
17	छतरपुर	चंदला
18	छतरपुर	पाण्डेपुरवा
19	छतरपुर	शिवराजपुर
20	छतरपुर	कुरेला
21	छतरपुर	मुकुन्दपुर
22	छतरपुर	दुमखेड़ा
23	छतरपुर	उदयपुर
24	छतरपुर	खैरौं
25	छतरपुर	रजिया
26	छतरपुर	खिरिया बुजुर्ग
27	छतरपुर	बक्स्वाहा
28	छतरपुर	भेल्दा
29	छतरपुर	दिदौनिया

(2) जिला—सागर

30	सागर	क्वाथला
31	सागर	मंजला
32	सागर	बम्होरी जगदीश
33	सागर	चनारी
34	सागर	मटिया
35	सागर	मउ
36	सागर	जलंधर
37	सागर	मोकलपुर
38	सागर	तोड़ा
39	सागर	बदौना
40	सागर	चनौआ
41	सागर	तिन्सीमारपानी
42	सागर	मैनाई
43	सागर	जूनिया
44	सागर	समनापुर
45	सागर	छिंदली
46	सागर	बिलहरी
47	सागर	सूरजपुरा
48	सागर	नाहरमऊ
49	सागर	बरकोटिखुर्द
50	सागर	केसली

(1)	(2)	(3)
51	सागर	जरूआ
52	सागर	चिरई
53	सागर	जैतपुर कछया
54	सागर	गौरझामर
55	सागर	खामखेड़ा
56	सागर	रामपुर

(3) जिला—दमोह

57	दमोह	कालूमर
58	दमोह	भैसखार छोटी कटंगी
59	दमोह	भिनेनी
60	दमोह	करारिया
61	दमोह	बडेरा
62	दमोह	गहरानाला
63	दमोह	धनेटा
64	दमोह	जांगूपुरा
65	दमोह	फतेहपुर
66	दमोह	चौपरा बासाकलाँ
67	दमोह	रियाना
68	दमोह	पिपरिया
69	दमोह	पवैया
70	दमोह	सारंगपुरा
71	दमोह	गूगराकलाँ
72	दमोह	भिलौनी

(4) जिला—पन्ना

73	पन्ना	मलघन
74	पन्ना	चकरभटा
75	पन्ना	बोरी
76	पन्ना	हरवंशपुरा
77	पन्ना	महिलवारा
78	पन्ना	इमलिया
79	पन्ना	रैपुरा
80	पन्ना	हरदुआ पटेल

(5) जिला—टीकमगढ़

81	टीकमगढ़	सुन्दरपुर
82	टीकमगढ़	टीलादांत
83	टीकमगढ़	रानीपुरा
84	टीकमगढ़	बारौन
85	टीकमगढ़	जरूआ

(1)	(2)	(3)
86	टीकमगढ़	भरदई
87	टीकमगढ़	बरूआ
88	टीकमगढ़	सतीघाट
89	टीकमगढ़	पट्टी गनेशू
90	टीकमगढ़	चन्देरी
91	टीकमगढ़	मनगुवा
92	टीकमगढ़	चन्देरी खास
93	टीकमगढ़	बार
94	टीकमगढ़	कोट्टा
(6) जिला—भोपाल		
95	भोपाल	बिरहई
(7) जिला—रायसेन		
96	रायसेन	रजबाड़ा
97	रायसेन	महुआखेडा
98	रायसेन	गढ़ोईपुर
99	रायसेन	हपसिली
100	रायसेन	सेमराखास
101	रायसेन	शाहबाद तिलेन्डी
102	रायसेन	नागपुर नगझिरी
103	रायसेन	अमोदा
104	रायसेन	देहगवां
105	रायसेन	बेरखेडी
106	रायसेन	सालाबरू
107	रायसेन	टेहरी
108	रायसेन	तुलसीपार
109	रायसेन	मसूरबाबडी
110	रायसेन	साजाखेडा
(8) जिला—सीहोर		
111	सीहोर	मनीरामपुरा
112	सीहोर	नहलाई
(9) जिला—उज्जैन		
113	उज्जैन	खेडला
114	उज्जैन	तुलसापुरा
(10) जिला—धार		
115	धार	थाना
116	धार	इंदला

(1)	(2)	(3)
(11) जिला—रतलाम		
117	रतलाम	डैरीत्रिवेणी
(12) जिला—आगर मालवा		
118	आगर मालवा	कीटखेड़ी
(13) जिला—मंदसौर		
119	मंदसौर	परासली
120	मंदसौर	नावली
121	मंदसौर	चौसला
122	मंदसौर	कोटेश्वर
123	मंदसौर	रहीमगढ़
124	मंदसौर	दोरवाड़ा
125	मंदसौर	सोम्या
126	मंदसौर	रतनपुरा
127	मंदसौर	कैथूली
128	मंदसौर	औसारा
129	मंदसौर	औसरना
130	मंदसौर	बीड़गांव
131	मंदसौर	कालाकोट
(14) जिला—खरगोन		
132	खरगोन	लाखापुरा
133	खरगोन	बसंतपुरा
134	खरगोन	टेमरिया
(15) जिला—खण्डवा		
135	खण्डवा	छनेरा
136	खण्डवा	खजूरी
137	खण्डवा	इटवा मामाडोह
138	खण्डवा	मेढापानी
139	खण्डवा	नावली
140	खण्डवा	अर्दला
(16) जिला—हरदा		
141	हरदा	सिराली
142	हरदा	रेहटाकलां
143	हरदा	ढोलगांव कलां
144	हरदा	चारूवा
145	हरदा	छीपाबड
146	हरदा	कुडाबा
147	हरदा	आमाखाल

(1)	(2)	(3)
(17) जिला—छिंदवाड़ा		
148	छिंदवाड़ा	चिमौआ
149	छिंदवाड़ा	बसुरिया
150	छिंदवाड़ा	तेंदनी
151	छिंदवाड़ा	साजवा
152	छिंदवाड़ा	बड़ेला
153	छिंदवाड़ा	बागला
154	छिंदवाड़ा	गुरैया
155	छिंदवाड़ा	पिपरियागुमानी
156	छिंदवाड़ा	डेहरी
157	छिंदवाड़ा	बिलावरकलां
158	छिंदवाड़ा	दबक
159	छिंदवाड़ा	पिण्डरईसराफ
160	छिंदवाड़ा	टुण्डवाडा
161	छिंदवाड़ा	घोघरा
162	छिंदवाड़ा	रामपुरीदावा झिर
163	छिंदवाड़ा	बगदरी
164	छिंदवाड़ा	दिलावर मोहगाँव
165	छिंदवाड़ा	पंढरीखापा
166	छिंदवाड़ा	सीताझिर
167	छिंदवाड़ा	डोकढोह
168	छिंदवाड़ा	अंबाखापा
169	छिंदवाड़ा	गोहारी
170	छिंदवाड़ा	भाजीपानी
171	छिंदवाड़ा	मोहगाव
(18) जिला—जबलपुर		
172	जबलपुर	डुगरगांवा
(19) जिला—नरसिंहपुर		
173	नरसिंहपुर	कुण्डा
174	नरसिंहपुर	स्वामीसागर
175	नरसिंहपुर	मेहगांव
176	नरसिंहपुर	गड़रिया
(20) जिला—बालाघाट		
177	बालाघाट	महकेपार
178	बालाघाट	बम्हनी
179	बालाघाट	चिखला
180	बालाघाट	बासी

(1)	(2)	(3)
(21) जिला—सिंगरौली		
181	सिंगरौली	पडरी
182	सिंगरौली	सरोंधा
183	सिंगरौली	साजापानी
(22) जिला—अनूपपुर		
184	अनूपपुर	करपा
185	अनूपपुर	नानघाटी
186	अनूपपुर	छुलकारी
187	अनूपपुर	लखनपुर
(23) जिला—सतना		
188	सतना	मटेहना
189	सतना	पथण्डा
190	सतना	सोहास
191	सतना	लौलाछ
(24) जिला—रीवा		
192	रीवा	भमरा
193	रीवा	झलवार
194	रीवा	हरदुआ
(25) जिला—शिवपुरी		
195	शिवपुरी	छर्च
196	शिवपुरी	सुनाज
197	शिवपुरी	कोड़ापाडौन
198	शिवपुरी	पचीपुरा
(26) जिला—बड़वानी		
199	बड़वानी	कमोदवाड़ा
(27) जिला—बैतूल		
200	बैतूल	गुबरेल
201	बैतूल	डुडरिया
202	बैतूल	छिंदवाड़ा
(28) जिला—विदिशा		
203	विदिशा	रायखेड़ी
204	विदिशा	ऐंचदा
205	विदिशा	रेहटी

No. 32-18-2018-M-31-124.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, appoints one of the Sub-Engineers of the concerned Sub-Division of the Water Users Association as specified in the column (3) of the table below nominated by the concerned Chief Engineer, as Competent Authority for the Water Users Association of the District as specified in column (2) and (3) respectively of the said table, namely:—

TABLE

S. No. (1)	District (2)	Name of Water Users Association (3)
(1) District—Chhatarpur		
1	Chhatarpur	Jagatpur
2	Chhatarpur	Sarbai No. 1
3	Chhatarpur	Vyasbadoura
4	Chhatarpur	Khadehi
5	Chhatarpur	Bachhoun
6	Chhatarpur	Goyra
7	Chhatarpur	Madhavpur
8	Chhatarpur	Manuriya
9	Chhatarpur	Hajipur
10	Chhatarpur	Chhati Bamhour
11	Chhatarpur	Gohani
12	Chhatarpur	Sarbai No. 2
13	Chhatarpur	Banjari
14	Chhatarpur	Singarpur
15	Chhatarpur	Chukehata
16	Chhatarpur	Khadeha
17	Chhatarpur	Chandla
18	Chhatarpur	Pandepurva
19	Chhatarpur	Shivrajpur
20	Chhatarpur	Kurela
21	Chhatarpur	Mukundpur
22	Chhatarpur	Dumkheda
23	Chhatarpur	Udaypur
24	Chhatarpur	Khairon
25	Chhatarpur	Rajiya
26	Chhatarpur	Khiriya Bujurg
27	Chhatarpur	Baksvaha
28	Chhatarpur	Bhelda
29	Chhatarpur	Didouniya
(2) District—Sagar		
30	Sagar	Kwayla
31	Sagar	Manjla
32	Sagar	Bamhori Jagdeesh
33	Sagar	Chanari
34	Sagar	Matiya
35	Sagar	Mau
36	Sagar	Jalandhar

(1)	(2)	(3)
37	Sagar	Mokalpur
38	Sagar	Toda
39	Sagar	Badouna
40	Sagar	Chanoua
41	Sagar	Tinsimarpani
42	Sagar	Mainai
43	Sagar	Jooniya
44	Sagar	Samnapur
45	Sagar	Chhindli
46	Sagar	Bilhari
47	Sagar	Surajpura
48	Sagar	Naharmau
49	Sagar	Barkotikhurd
50	Sagar	Keshli
51	Sagar	Jarua
52	Sagar	Chirai
53	Sagar	Jaitpur Kachhya
54	Sagar	Gourjhamar
55	Sagar	Khamkheda
56	Sagar	Rampur
(3) District—Damoh		
57	Damoh	Kaloomar
58	Damoh	Bhainskhar Chhoti Katangi
59	Damoh	Bhinaini
60	Damoh	Karariya
61	Damoh	Badaira
62	Damoh	Gaharanala
63	Damoh	Dhaneta
64	Damoh	Jangupura
65	Damoh	Phatehpur
66	Damoh	Choupra Basakalan
67	Damoh	Riyana
68	Damoh	Pipariya
69	Damoh	Pavaiya
70	Damoh	Sarang pura
71	Damoh	goograkalan
72	Damoh	Bhiloni
(4) District—Panna		
73	Panna	Malghan
74	Panna	Chakarbhata
75	Panna	Bori
76	Panna	Harbanshpura
77	Panna	Mahilvara
78	Panna	Imliya
79	Panna	Raipura
80	Panna	Hardua Patel

(1)	(2)	(3)
(5) District—Tikamgarh		
81	Tikamgarh	Sundarpur
82	Tikamgarh	Tiladant
83	Tikamgarh	Ranipura
84	Tikamgarh	Baroun
85	Tikamgarh	Jarua
86	Tikamgarh	Bhadrai
87	Tikamgarh	Barua
88	Tikamgarh	Satighat
89	Tikamgarh	Pattiganeshu
90	Tikamgarh	Chanderi
91	Tikamgarh	Mangua
92	Tikamgarh	Chanderi khas
93	Tikamgarh	Bar
94	Tikamgarh	Kotra
(6) District—Bhopal		
95	Bhopal	Birhai
(7) District—Raisen		
96	Raisen	Rajbada
97	Raisen	Mahuakheda
98	Raisen	Gadhoipur
99	Raisen	Hapsili
100	Raisen	Semrakhas
101	Raisen	Shabadtilendi
102	Raisen	Nagpura Nagjhiri
103	Raisen	Amoda
104	Raisen	Dehgavan
105	Raisen	Berkhedi
106	Raisen	Salabarru
107	Raisen	Tehri
108	Raisen	Tulsipar
109	Raisen	Masoor Babdi
110	Raisen	Sajkheda
(8) District—Sehore		
111	Sehore	Manirampura
112	Sehore	Nahlai
(9) District—Ujjain		
113	Ujjain	Khedla
114	Ujjain	Tulsapura
(10) District—Dhar		
115	Dhar	Thana
116	Dhar	Indla

(1)	(2)	(3)
(11) District—Ratlam		
117	Ratlam	Dairitirveni
(12) District—Agar-Malwa		
118	Agar-Malwa	Keetkhedi
(13) District—Mandsaur		
119	Mandsaur	Parasali
120	Mandsaur	Navli
121	Mandsaur	Chousla
122	Mandsaur	Koteswar
123	Mandsaur	Rahimgarh
124	Mandsaur	Doorvada
125	Mandsaur	Somya
126	Mandsaur	Ratanupura
127	Mandsaur	Kethooli
128	Mandsaur	Ousara
129	Mandsaur	Ousrana
130	Mandsaur	beedgoan
131	Mandsaur	Kalakot
(14) District—Khargone		
132	Khargone	Lakhapura
133	Khargone	Basantpura
134	Khargone	Temriya
(15) District—Khandwa		
135	Khandwa	Chhanera
136	Khandwa	Khajuri
137	Khandwa	Itavamamadoh
138	Khandwa	Medhapani
139	Khandwa	Navli
140	Khandwa	Ardla
(16) District—Harda		
141	Harda	Sirali
142	Harda	Rehtakalan
143	Harda	Dholgoan kalan
144	Harda	Charuva
145	Harda	Chhipabad
146	Harda	Kudava
147	Harda	Amakhal
(17) District—Chhindwara		
148	Chhindwara	Chimoua
149	Chhindwara	Basuriya
150	Chhindwara	Tendni
151	Chhindwara	Sajva

(1)	(2)	(3)
152	Chhindwara	Badela
153	Chhindwara	Bagla
154	Chhindwara	Guraiya
155	Chhindwara	Pipariyagumani
156	Chhindwara	Dehri
157	Chhindwara	Bilavarkalan
158	Chhindwara	Dabak
159	Chhindwara	Pindraisaraf
160	Chhindwara	Tundvada
161	Chhindwara	Ghoghra
162	Chhindwara	Rampuridava jhir
163	Chhindwara	Bagdari
164	Chhindwara	Dilavarmohgoan
165	Chhindwara	Pandhrikhapa
166	Chhindwara	Sitajhir
167	Chhindwara	Dokdoh
168	Chhindwara	Ambakhapa
169	Chhindwara	Gohari
170	Chhindwara	Bhajipani
171	Chhindwara	Mohgoan
(18) District—Jabalpur		
172	Jabalpur	Dugargawan
(19) District—Narsingpur		
173	Narsingpur	Kunda
174	Narsingpur	Swamisagar
175	Narsingpur	Mehgoan
176	Narsingpur	Gadriya
(20) District—Balaghat		
177	Balaghat	Mahkepar
178	Balaghat	Bamhni
179	Balaghat	Chikhla
180	Balaghat	Basi
(21) District—Singrauli		
181	Singrauli	Padri
182	Singrauli	Sarondha
183	Singrauli	Shajapani
(22) District—Anuppur		
184	Anuppur	Karpa
185	Anuppur	Nanghati
186	Anuppur	Chhulkari
187	Anuppur	Lakhanpur
(23) District—Satna		
188	Satna	Matehana
189	Satna	Pathanda

(1)	(2)	(3)
190	Satna	Sohas
191	Satna	Loulaksh
(24) District—Rewa		
192	Rewa	Bhamra
193	Rewa	Jhalwar
194	Rewa	Hardua
(25) District—Shivpuri		
195	Shivpuri	Chharch
196	Shivpuri	Sunaj
197	Shivpuri	Koodapdon
198	Shivpuri	Pachipura
(26) District—Badwani		
199	Badwani	Kamodwada
(27) District—Betul		
200	Betul	Gubrel
201	Betul	Dudariya
202	Betul	Chhindwad
(28) District—Vidisha		
203	Vidisha	Raikhedi
204	Vidisha	Enchda
205	Vidisha	Rehti

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 व्ही. एस. टेकाम, उपसचिव.